


BUS

बस

ಬಸ್ಸು





**The red bus came**

लाल बस आई

ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸು ಬಂದಿತು





**People got in**  
मुसाफिर अंदर चढे  
प्रयाणिकरु बसु हत्तिदरु



**I will also sit in the bus**

मैं भी बस में बैठूंगी

नानो बसिनल्लि कुळितुकैळुवैनु



**Along with my cat**

अपनी बिल्ली के साथ

नन्नु बॅकॅनै०००दिगै






**No, I will not allow the cat inside**

नहीं, बिल्ली बस में नहीं चढ़ सकती

ಇಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ



**The bus left**


बस चली गई

ಬಸ್ಸು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು

**I was left behind**

मैं पीछे रह गई

ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದೆ



**But my cat went in the bus**

पर मेरी बिल्ली बस में चली गई

ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು